

18U/92/29(Set-1)

No. of Questions : 100 -

प्रश्नों की रांख्या : 100

Time : 2½ Hours]

[Full Marks : 300

समय : 2½ घण्टे]

[पूर्णाङ्क : 300

Note : (1) This question booklet contains 100 (hundred) questions in all (30 in Section – A and 70 in Section – B). Attempt as many questions as you can. Each question carries 3 (three) marks. One mark will be deducted for each incorrect answer. Zero mark will be awarded for each unattempted question.

इस प्रश्न-पुस्तिका में कुल 100 (सौ) प्रश्न हैं (खण्ड – अ में 30 व खण्ड – ब में 70)। अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 (तीन) अंकों का है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जायेगा। प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का प्राप्तिक शून्य होगा।

(2) If more than one alternative answers seem to be approximate to the correct answer, choose the closest one.

यदि एकाधिक वैकल्पिक उत्तर सही उत्तर के निकट प्रतीत हों, तो निकटतम् सही उत्तर चुनिए।

खण्ड - अ

4. A child from a disorganized home will experience the greatest difficulty with:
- (1) Well structured lessons
 - (2) Independent study
 - (3) Programmed instruction
 - (4) Short answer tests
- एक असंगठित परिवार का बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा :
- (1) सुव्यवस्थित लाठों से
 - (2) स्वतंत्रतापूर्वक अध्ययन ने
 - (3) अग्रिक्रमित अनुदेशन में
 - (4) लघुउत्तरीय परीक्षणों में
5. The main purpose of teaching is:
- (1) development of reasoning power
 - (2) development of thinking power
 - (3) Both (1) and (2)
 - (4) giving information only
- शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है :
- (1) तार्किक शक्ति का विकास करना
 - (2) चितन शक्ति का विकास करना
 - (3) दोनों (1) और (2)
 - (4) केवल सूचना देना
6. In a teacher dominated classroom, students usually become:
- (1) Active learners
 - (2) Passive learners
 - (3) Competent learners
 - (4) Self dependant learners
- एक अध्यापक केंद्रित / प्रधान कक्षा में, विद्यार्थी प्राय बन जाते हैं :
- (1) एक्टिव अधिगमकर्ता
 - (2) प्रिंसिपिय अधिगमकर्ता
 - (3) दक्ष अधिगमकर्ता
 - (4) आत्मनिर्भर अधिगमकर्ता
7. An effective method of learning a language is:
- (1) Reading
 - (2) Listening
 - (3) Writing
 - (4) Reading, Listening, Writing and Speaking
- भाषा सीखने की एक प्रभावशाली विधि है :
- (1) पढ़ना
 - (2) सुनना
 - (3) लिखना
 - (4) पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना

18U/92/29(Set-1)

8. Values are not taught but caught, then how to inculcate values among future citizens?

- (1) Through teaching
- (2) Through guidance and counselling
- (3) Through strict discipline
- (4) By following values

मूलों को शिखाया नहीं बल्कि पहचान लिया जाता है, जो आपी वासियों में मूलों का विवरण कह किए जा सकता है ?

- (1) शिक्षण हारा
- (2) निर्देशन और परामर्श हारा
- (3) कठोर अनुशासन हारा
- (4) मूला के अनुपालन हारा

9. In setting a question paper you will pay more attention on :

- (1) Content
- (2) Distribution of questions
- (3) Construction of questions
- (4) Duration of question paper

एक प्रश्नपत्र का निर्माण करते समय आप ध्यान देंगे :

- (1) विषय करतु जर
- (2) प्रश्नों के वितरण पर
- (3) प्रश्नों के निर्माण पर
- (4) प्रश्नांक की अवधि पर

10. Effective teacher is he/she :

- (1) Who has control over the class
- (2) Who can deliver more information in limited period
- (3) Who inspires students 'how to learn'
- (4) Who carefully checks the home assignment

एक प्रयाती अध्यापक वह है :

- (1) जिसका कक्षा पर निर्देशन होता है।
 - (2) जो रीमिट रास्य में अधिक सूचना दे सकता है।
 - (3) जो विद्यार्थियों को 'कैसे रीखा' जाएँ इसके लिए प्रेरित करता है।
 - (4) जो राह कार्य को सावधानीपूर्वक जाँचता है।
11. If yellow is called blue, blue is called red, red is called pink, pink is called black and black is called orange, then what is the colour of blood?

- | | |
|------------|------------|
| (1) yellow | (2) pink |
| (3) blue | (4) orange |

यदि पीले को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, लाल को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को काला कहा जाता है तथा काले को नरंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग का होता है ?

- | | |
|----------|------------|
| (1) पीला | (2) गुलाबी |
| (3) नीला | (4) नारंगी |

12. In a certain code language 'CAT' is written as 'DDY'. How will 'BIG' be written in that code?

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| (1) CML | (2) CJL | (3) CLL | (4) CNL |
|---------|---------|---------|---------|

एक निश्चित संकेतिक भाषा में 'CAT' को 'DDY' लिखा जाता है। उसी संकेतिक भाषा (कोड) में 'BIG' को किसे लिखा जाएगा ?

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| (1) CML | (2) CJL | (3) CLL | (4) CNL |
|---------|---------|---------|---------|

13. Clock : Time :: Thermometer : ?

- | | |
|------------|-----------------|
| (1) Heat | (2) Radiation |
| (3) Energy | (4) Temperature |

घड़ी : समय :: थर्मोमीटर : ?

- | | |
|-----------|-----------------|
| (1) ऊर्जा | (2) रिफ्रिजरेटर |
| (3) ऊर्जा | (4) तापक्रम |

18U/92/29(Set-1)

14. Gun : Bullet :: Chimney : ?

- | | |
|------------|-----------|
| (1) Ground | (2) Smoke |
| (3) House | (4) Roof |

गUN (बन्दूक) : बुलेट :: चिम्नी : ?

- | | |
|----------|-------------|
| (1) लाईन | (2) ग्रीष्म |
| (3) घर | (4) बात |

15. Find the value of question marks (?) :

C, Z, E, X, I, V, L, T, O, ?, ?

- | | |
|--------|--------|
| (1) OP | (2) PQ |
| (3) RR | (4) SR |

प्रत्यन्धारक चिन्हों के मान बताइए।

C, Z, E, X, I, V, L, T, O, ?, ?

- | | |
|--------|--------|
| (1) OP | (2) PQ |
| (3) RR | (4) SR |

16. Choose the correct alternative :

1, 4, 9, 16, 25, (.....)

- | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| (1) 35 | (2) 36 | (3) 48 | (4) 49 |
| सही विकल्प चुनिए। | | | |

1, 4, 9, 16, 25, (.....)

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (1) 35 | (2) 36 | (3) 48 | (4) 49 |
|--------|--------|--------|--------|

17. Aruna ranks twelfth in a class of forty six. What will be her rank from the last?

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (1) 23 | (2) 34 | (3) 35 | (4) 37 |
|--------|--------|--------|--------|

अरुणा विद्यार्थियों की कक्षा में अरुणा का रैंक 12 है। उन्हें ऐसा रैंक क्यों दिया जाएगा?

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (1) 23 | (2) 34 | (3) 35 | (4) 37 |
|--------|--------|--------|--------|

18. If Raman is to the South of Shyam and Mohan is to the East of Shyam, then in which direction is Raman with respect to Mohan ?

- (1) North-East (2) North-West (3) South-East (4) South-West

यदि रमन श्याम के दक्षिण में है और मोहन श्याम के पूर्व में है तो रमन मोहन के अंतर किसी दिशा में है ?

- (1) उत्तर-पूर्व (2) उत्तर-पश्चिम (3) दक्षिण-पूर्व (4) दक्षिण-पश्चिम

There are six persons A, B, C, D, E and F. C is the sister of E. B is the brother of E's husband. D is the father of A and grandfather of E. There are two fathers, three brothers and a mother in the group. Then answer question 19 and 20 :

इन लिए A, B, C, D, E और F हैं। C, E की बहन है। B, E का पति का भाई है। D, A का पिता है और F का दादा है। समूह में को मिला तीस भाई और एक माँ है। तो प्रश्न 19 और 20 का उत्तर दें :

19. Who is the mother ?

- (1) A (2) B (3) D (4) E

माता कौन है ?

- (1) A (2) B (3) D (4) E

20. Who is E's husband ?

- (1) B (2) C (3) A (4) F

E का पति कौन है ?

- (1) B (2) C (3) A (4) F

21. In which year Mahamana Malaviya was awarded Bharat Ratna ?

- (1) 2014 (2) 2015 (3) 2016 (4) 2017

महामना मालविया को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया ?

- (1) 2014 (2) 2015 (3) 2016 (4) 2017

22. Who is related to 125th year of Chicago Addresses ?

- (1) Swami Dayanand (2) Swami Vivekanand

- (3) Swami Yoganand (4) Swami Ramtirth

शिक्षाधीनो व्याख्यानो के 125 वें वर्ष से कौन संबंधित है ?

- (1) स्वामी दयानन्द (2) स्वामी विवेकानन्द

- (3) स्वामी योगानन्द (4) स्वामी रामतिर्थ

18U/92/29(Set-1)

23. Operation Indradhanush is related to :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| (1) Immunization | (2) LPG |
| (3) Poverty elimination | (4) Banking |

ऑपरेशन इन्द्रधनुष किससे सम्बंधित है ?

- | | |
|---------------------|----------------|
| (1) टीकाकरण | (2) पेटू गैज़ी |
| (3) गरीबी नियन्त्रण | (4) बैंकिंग |

24. Which project is related to computer literacy ?

- | | |
|------------|-----------|
| (1) CAI | (2) CLASS |
| (3) WINDOW | (4) CPU |

कॉम-सो परियोजना समवक साधनों से सम्बंधित है ?

- | | |
|------------|----------------|
| (1) सीएआई | (2) सीएसएसएलएस |
| (3) विन्डो | (4) सीपीयू |

25. Which is recently launched online learning portal by MHRD in India ?

- | | |
|------------|------------|
| (1) SWAYAM | (2) ABHYAN |
| (3) VARSHA | (4) MOOCS |

भारत में एन्ड्रॉयॉडों द्वारा हाल में ही कौन-सा ऑनलाइन अधिगम प्लॉट शुरू किया गया है ?

- | | |
|-------------|-------------|
| (1) स्वायम् | (2) अभ्यान |
| (3) वर्षा | (4) मूक्ष्म |

26. When NCIE was established as a statutory body in India ?

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| (1) 1992 | (2) 1993 | (3) 1994 | (4) 1995 |
|----------|----------|----------|----------|

भारत में एक राष्ट्रीयिक नीतिक दोषों के लिए एनोर्मलाइजेशन की स्थापना कब हुई ?

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| (1) 1992 | (2) 1993 | (3) 1994 | (4) 1995 |
|----------|----------|----------|----------|



27. Which one of the following bodies is responsible for assessment and accreditation of Universities?

- | | |
|----------|-----------|
| (1) UGC | (2) NAAC |
| (3) MHRD | (4) NCERT |

दिशविद्यालयों के आकलन एवं प्रत्यायन हेतु कौन-सा निकाय उत्तरदायी है ?

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) यूजीआरसी | (2) एनएएसी |
| (3) एमएचओआरडी | (4) एनसीईआरटी |

28. PMMMNMTT was launched in :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) December, 2014 | (2) February, 2015 |
| (3) January, 2016 | (4) July, 2015 |

पीएम्मनएम्मटीएन्मटीटी इन्हें किस दिन शुरूआत हुई ?

- | | |
|------------------|-----------------|
| (1) दिसंबर, 2014 | (2) फरवरी, 2015 |
| (3) जनवरी, 2016 | (4) चुलाई, 2015 |

29. Madan Mohan Malviya University of technology is situated in :

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) Varanasi | (2) Kanpur |
| (3) Gorakhpur | (4) Allahabad |

मारण सोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है .

- | | |
|-----------------|------------------|
| (1) वाराणसी में | (2) कानपुर में |
| (3) गोरखपुर में | (4) इलाहाबाद में |

30. Who was the first Vice-chancellor of Banaras Hindu University?

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| (1) Shree P. S. Swamy Iyer | (2) Pandit Madan Mohan Malviya |
| (3) Sir Sunder Lal | (4) Dr. Sarvapalli Radhakrishnan |

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चास्सलर कौन थे ?

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (1) श्री पी.एस.स्वामी अग्रवाल | (2) पण्डित मदन सोहन मालवीय |
| (3) सर सुन्दर लाल | (4) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन |

SECTION – B

खण्ड – ब

31. If G , M and R represent the gravitational constant, the earth's mass and earth's radius respectively, then the escape velocity is given by :

अगर G , M और R क्रमशः गुरुत्वाकर्षण नियतांक, धूष्यों की सहित एवं धूष्यों की भिन्ना प्रदर्शित करें, तो प्रलयन गति का मान होगा :

$$(1) \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

$$(2) \sqrt{\frac{GM}{2R}}$$

$$(3) \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

$$(4) 2\sqrt{\frac{GM}{R}}$$

32. Which of the following was unified by Maxwell?

(1) Electricity and Magnetism (2) Electromagnetism & Gravitation

(3) Electromagnetism & Weak force (4) Electricity & Sound

निम्नलिखित में से ऐसा जोड़ा किया जाएगा इसकी उपरी कृति किसे कहा जाए ?

(1) विद्युत एवं चुम्बकत्व

(2) विद्युत-चुम्बकत्व एवं गुरुत्वाकर्षण

(3) विद्युत-चुम्बकत्व एवं तुरंगा वर्णन

(4) विद्युत एवं ऊर्ध्वासनी

33. The density of a solid of weight W is ' d ', if this solid is immersed in a liquid of density ρ then the apparent weight of the solid will be :

W भार वाले एक ठोस का घनत्व d है, अदि इस ठोस को ρ घनत्व वाले द्रव में लगा दिया जाए तो उसका दिखावटी भार होगा :

$$(1) W' = W \left(1 - \frac{\rho}{d} \right)$$

$$(2) W' = W \left(1 + \frac{d}{\rho} \right)$$

$$(3) W' = W \left(1 + \frac{\rho}{d} \right)$$

$$(4) W' = W \left(1 - \frac{d}{\rho} \right)$$

34. The moment of inertia of a circular disc of radius R and mass M about an axis perpendicular to the disc at the centre is :

R त्रिज्या एवं M संहिते दाली एक दुमाकार डिस्क का जड़ल आधूर्ण उस डिस्क के लंबवत केन्द्र से होती हुई अक्ष पर निम्नलिखित होता है।

- (1) MR^2
- (2) $\frac{MR^2}{2}$
- (3) $\frac{MR^2}{4}$
- (4) $2MR^2$

35. Which of the following is a non-conservative force ?

- (1) Gravitational force
- (2) Frictional force
- (3) Spring force
- (4) Electrical force

निम्नलिखित में कौन-सा गैर संविदाती बल है ?

- (1) गुरुत्वाकर्षण बल
- (2) धर्षण बल
- (3) स्प्रिंग बल
- (4) विद्युत बल

36. Elastic behaviour of a solid depends on :

- (1) Interatomic forces
- (2) Medium surrounding the solid
- (3) Temperature of the solid
- (4) Surface of the solid

किसी ठोस का लोयदार व्यवहार निम्नलिखित पर निर्भर होता है।

- (1) उसके परमाणुओं के बीच के बल पर
- (2) ठोस के चारों ओर के साधारण पर
- (3) ठोस के तापक्रम पर
- (4) ठोस की रातह पर

18U/92/29(Set-1)

- 37 The efficiency of a Carnot engine working between temperature T_1 and T_2 with $T_1 > T_2$ is given by :

I_1 तथा I_2 अपेक्षित के दोनों चलने वाली कार्नेट इंजिन की दक्षता निम्नलिखित होती है।

$$I_1 > I_2$$

- $$\begin{array}{ll} (1) \quad \frac{T_2}{T_1} & (2) \quad \frac{T_1 + T_2}{T_2} \\ (3) \quad \frac{T_1 - T_2}{T} & (4) \quad \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} \end{array}$$

38. A source emitting transverse waves is moving away from a stationary observer with uniform velocity v . If the wavelength of the wave is λ_0 and its velocity c is greater than v then the wavelength measured by the observer will be :

- (1) $\lambda = \lambda_0 \left(1 - \frac{v}{c}\right)$ (2) $\lambda = \lambda_0 \left(1 + \frac{v}{c}\right)$
 (3) $\lambda = \lambda_0 \left(1 - \frac{v}{c^2}\right)$ (4) $\lambda = \lambda_0 \left(1 + \frac{v}{c^2}\right)$

जनुप्रस्थ तरंग उत्तर्जित करने वाला स्रोत एक रिथर प्रेक्षक से समान मति c से दूर नहीं है। यदि तरंग की मति c , v से अधिक हो तथा तरंगदैर्घ्य λ , हो तो प्रेक्षक द्वारा समान मति तरंगदैर्घ्य होगा।

- (1) $\hat{z}_t = \hat{z}_{t-1} \left(1 + \frac{\epsilon_t}{\sigma_t}\right)$ (2) $\hat{z}_t = \hat{z}_{t-1} \left(1 + \frac{\epsilon_t}{\sigma_t}\right)$
 (3) $\hat{z}_t = \hat{z}_{t-1} \left(1 + \frac{\epsilon_t}{\sigma_t}\right)$ (4) $\hat{z}_t = \hat{z}_{t-1} \left(1 + \frac{\epsilon_t}{\sigma_t}\right)$

39. The radiation emitted by a blackbody source gives rise to following spectrum:

- (1) Continuous spectrum (2) Band spectrum
(3) Line spectrum (4) Raman spectrum

एक कृषिका छोत से ललित पिंडिया निन प्रकार का रोक्टुम बुद्धा है।

40. Photo electric effect was experimentally verified by :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) R. S. Mulliken | (2) A. H. Compton |
| (3) J. J. Thomson | (4) R. A. Millikan |

प्रकाश-विद्युत प्रभाव का प्रयोगात्मक संस्थापन निम्नलिखित हारा किया गया :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (1) आरू एस मूलिकन | (2) ए० हॉर्टन कॉम्पटन |
| (3) जे० जे० टोमसन | (4) आरू रू मिलिकन |

41. Fraunhofer lines are observed in the following :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (1) Hydrogen spectrum | (2) Molecular spectrum |
| (3) Solar spectrum | (4) Atomic spectrum |

फ्रॉन्होफर रेखाएँ निम्नलिखित से देखी जाती हैं :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम | (2) अणुविकल्प स्पेक्ट्रम |
| (3) सौर स्पेक्ट्रम | (4) परमाणु स्पेक्ट्रम |

42. The colour of light from a light emitting diode depends on :

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| (1) Atoms of the semiconductor | (2) Molecules of the semiconductor |
| (3) Surface of the semiconductor | (4) Band gap of the semiconductor |

प्रकाश उत्पादक डायोड से निकले प्रकाश का रंग निम्नलिखित पर निर्भर होता है :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| (1) अर्धचालक के परमाणु | (2) अर्धचालक के अणु |
| (3) अर्धचालक की सतह | (4) अर्धचालक का लंबा अन्तराल |

43. In relation to Indian industries entrepreneurship is :

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| (1) Necessary | (2) Unnecessary |
| (3) Burden | (4) Wastage of time and money |

भारतीय उद्योगों के सम्बन्ध में उद्घासिता है :

- | | |
|-------------|---------------------------|
| (1) आवश्यक | (2) अनावश्यक |
| (3) मुश्किल | (4) राष्ट्र के लिए व्यापक |

18U/92/29(Set-1)

44. According to Sociological approach entrepreneurship is:

- (ii) Process of sensitivity
 - (2) Process of role performance
 - (3) Process of Economic change
 - (4) Process of habits

सामाजिक अपराधों के अनुरूप विभिन्नों के

45. Keratomalacia disease is caused by deficiency of :

केरलामलिंग्या नामक शब्द फ्रेसो के कीमी वर्ग के लिए होता है।

46. Dental Fluorosis disease is caused due to:

हेल्पर पलोरेंसिस थीनारी का कारबग

- (1) 3-5 वर्षीय मल्लीरीत जल सं
 (2) 0-12 वर्षीय मल्लीरीत जल सं
 (3) 0-2 वर्षीय मल्लीरीत जल सं
 (4) 1-2 वर्षीय मल्लीरीत जल सं

47. Minimum of which is present in fruits:

कल्प में अनुनादम साक्षा में क्या पाया जाता है ?

- (1) श्रीराम (2) कृष्ण
 (3) विटामिन्स (4) मिनरल्स

48. Which protein is found in rice ?

- | | |
|--------------|-------------|
| (1) Argenin | (2) Zem |
| (3) Glutenin | (4) Albumin |

गावल में कौन-सा प्रोटीन होता है ?

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) अर्जेनिन | (2) जीन |
| (3) ग्लूटेनिन | (4) एलब्यूमिन |

49. Process of change of unsaturated fats into saturated fat is :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) Saponification | (2) Hydrogenation |
| (3) Oxidation | (4) Emulsification |

असंतुष्ट वसीय अम्लों को संतुष्ट वसीय अम्लों में बदलने की प्रक्रिया है :

- | | |
|--------------|-------------------|
| (1) रायनोकरण | (2) डाइड्रोजनोकरण |
| (3) आक्सीकरण | (4) पायसीकृत |

50. Nylon fabric is made of which process ?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) Physical method | (2) Chemical method |
| (3) Mixed method | (4) Local process |

नायलॉन के बनने का विधि द्वारा तैयार किये जाते हैं ?

- | | |
|------------------|-------------------|
| (1) भौतिक विधि | (2) रासायनिक विधि |
| (3) मिश्रित विधि | (4) देशी विधि |

51. Is a plastic fibre :

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) Nylon | (2) Rayon |
| (3) Orlon | (4) Wool |

एक प्लास्टिक रेशा कैन-सा है ?

- | | |
|------------|----------|
| (1) नायलॉन | (2) रेयन |
| (3) ऑर्लॉन | (4) ऊन |

18U/92/29(Set-1)

52. FPO is to prevent:

एक अधिकारी के हाथों से विभाग करता है।

- (1) अंग्रेजी की
(2) रुद्धि की
(3) यज्ञ साप्तशील की
(4) गलत लेखिंग की

53. Which is necessary in colour?

- (1) Balance
 - (2) Harmony
 - (3) Goal or Aim
 - (4) Proportion

स्थानों के बारें में क्या जानकारी है?

- (1) सदृश्य (2) अनुरूपता
(3) लक्षण (4) अनुपाद

54. The number of molecules decomposed on absorption of per photon of UV-Vis light is called .

अल्ट्रा रायलस्ट डिजुअल प्रकाश के बड़े कोटींम के अवशोषण पर आधारित अपेक्षा हो सकता है।

- (1) अमिक्या की गांड़ी (2) वरदमान मिश्र

(3) बिपिन चंद्रा (4) विमल कुमार

55. If 's' is the solubility of CaF_2 , the solubility product (K_{sp}) would be expressed as:

- $$(1) \quad K_{\text{eff}} = g^2 \quad (2) \quad K_{\text{eff}} = e^2 \quad (3) \quad K_{\text{eff}} = \frac{e^2}{4\pi r} \quad (4) \quad K_{\text{eff}} = \frac{e^2}{r}$$

ਜਿਥੋਂ CaF_2 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਖਾਤਾ ਵਾਲੇ (K_d) ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- (1) $K_0 \in S^2$ (2) $K_0 \in S^2$ (3) $K_0 \in 4S^2$

56. An emulsifier functions to :

- (1) coagulate a colloidal solution
- (2) stabilise a sol
- (3) stabilise an emulsion
- (4) electrify a colloidal solution

एम्युल्सिफर का कार्य क्या है ?

- (1) कोलोઇडल दिलयन को रक्षित करने के लिए
- (2) सिलेन्स को रक्षित करने के लिए
- (3) एम्युल्सन को रक्षित करने के लिए
- (4) कोलोઇडल दिलयन को प्रदूषित करने के लिए

57. For one component system the phase rule is :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) $F = 3 - P$ | (2) $F = 2 - P$ |
| (3) $F = 1 - P$ | (4) $F = 4 - P$ |

एक संघटक प्रणाली द्वारा क्या नियम है ?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| (1) $F = 3 - P$ | (2) $F = 2 - P$ |
| (3) $F = 1 - P$ | (4) $F = 4 - P$ |

58. $A + H_2 SO_4 \rightarrow B$ (a colourless gas with irritating smell), $B + H_2 SO_4 + K_2 Cr_2 O_7 \rightarrow$ green solution, A and B are :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) SO_3^{2-}, SO_2 | (2) Cl^-, HCl |
| (3) S^{2-}, H_2S | (4) CO_3^{2-}, CO_2 |

$A + H_2 SO_4 \rightarrow B$ (स्वाह रूप के साथ एक रंगहीन गैस), $B + H_2 SO_4 + K_2 Cr_2 O_7 \rightarrow$ हरा विलयन, A एवं B हैं :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) SO_3^{2-}, SO_2 | (2) Cl^-, HCl |
| (3) S^{2-}, H_2S | (4) CO_3^{2-}, CO_2 |

59. Which of the following is not a nucleophile ?

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (1) OH^- | (2) CN^- | (3) BF_3 | (4) NH_3 |
|------------|------------|------------|------------|

निम्न में कौन-कौन एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है ?

- | | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| (1) OH^- | (2) CN^- | (3) BF_3 | (4) NH_3 |
|------------|------------|------------|------------|

18U/92/29(Set-1)

60. Which of the following does not react with ammonical AgNO_3 , but decolorises bromine water?

- (1) C_2H_6 (2) C_5H_8 (3) C_6H_6 (4) C_7H_8

विषय से कोन-सा एक अमोनियामय AgNO_3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और ब्रॉमीन वृक्ष को राखीन करता है ?

- (1) C_2H_6 (2) C_5H_8 (3) C_6H_6 (4) C_7H_8

61. Benzene is converted into toluene by :

- (1) Grignard reagent (2) Perkin reaction
(3) Friedel-Craft's reaction (4) Wurtz reaction

बेंज़ीन को टालुइन में परिवर्तित किया जाता है

- (1) ग्रिनर्नर्ड अभिक्रिया द्वारा (2) पर्किंग अभिक्रिया द्वारा
(3) फ्रीडल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया द्वारा (4) वुर्ट्ज अभिक्रिया द्वारा

62. Which one of the following reagents is used to differentiate chlorobenzene from benzyl chloride?

- (1) Br_2 in H_2O (2) Alcoholic AgNO_3
(3) Br_2 in CCl_4 (4) KMnO_4

निम्न में किस अभिक्रिया का प्रयोग ब्लॉसिन्ग के लिए ब्लॉर्डल रा अलग करने के लिए किया जाता है ?

- (1) H_2O में Br_2 (2) अल्कोहॉलिक AgNO_3
(3) CCl_4 में Br_2 (4) KMnO_4

63. Which of the following has -O-O- linkage?

- (1) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_6$ (2) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$
(3) $\text{H}_2\text{S}_4\text{O}_6$ (4) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$

निम्न में से किसमें -O-O- बंध है ?

- (1) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_6$ (2) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$
(3) $\text{H}_2\text{S}_4\text{O}_6$ (4) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$

64. Both $[Ni(Cl)_4]^{2-}$ and $[Ni(CN)_6]^{2-}$ are diamagnetic. The hybridisation of Ni in these complexes respectively are :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (1) sp^3, sp^3 | (2) sp^3, dsp^2 |
| (3) dsp^2, sp^3 | (4) dsp^2, dsp^2 |

$[Ni(Cl)_4]^{2-}$ एवं $[Ni(CN)_6]^{2-}$ कोनों प्रति-चुम्बकीय हैं। इन संकरणों में Ni का संकरण क्रमशः है :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (1) sp^3, sp^3 | (2) sp^3, dsp^2 |
| (3) dsp^2, sp^3 | (4) dsp^2, dsp^2 |

65. The species in which the central atom uses sp^2 -hybridised orbitals in its bonding is :

- | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|
| (1) CH_3 | (2) NH_3 | (3) PH_3 | (4) SiH_4 |
|------------|------------|------------|-------------|

जिसके केन्द्रीय परमाणु में sp^2 -संकरित कक्षकीय को उपयोग द्वारा बनाने में होता है :

- | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|
| (1) CH_3 | (2) NH_3 | (3) PH_3 | (4) SiH_4 |
|------------|------------|------------|-------------|

66. 'Power-House' of cell is :

- | | |
|------------------|---------------------------|
| (1) Nucleus | (2) Endoplasmic reticulum |
| (3) Mitochondria | (4) Golgi Complex |

कोशिकाओं में 'उच्ची भवन' है :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| (1) केंद्रक | (2) इण्डोप्लाज्मिक-रेटिकुलम |
| (3) माइटोकान्ड्रिया | (4) गोल्डी कॉम्प्लेक्स |

67. Which is an annelid ?

- | | |
|------------|-------------|
| (1) Ant | (2) Crab |
| (3) Nereis | (4) Octopus |

निम्नलिखित में एनेलिड का जन्तु है :

- | | |
|-----------|------------|
| (1) चीटी | (2) केकड़ा |
| (3) निरिस | (4) ओकटोपस |

18U/92/29(Set-1)

68. Which phylum has highest number of species?

- | | |
|----------------|--------------|
| (1) Protozoa | (2) Porifera |
| (3) Arthropoda | (4) Mollusca |

किस शाखा में सबसे ज्यादा प्रजाति पायी जाती है ?

- | | |
|----------------|--------------|
| (1) प्रोटोजीआ | (2) पोरिफेरा |
| (3) अंथ्रोपोडा | (4) मोलिस्का |

69. Amoebic dysentery is caused by :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| (1) <i>Plasmodium vivax</i> | (2) <i>Entamoeba histolytica</i> |
| (3) <i>Amoeba proteus</i> | (4) <i>Taenia solium</i> |
- अमोबीक देशीश किसके द्वारा होती है ?
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (1) एक्सामोडोडियम वाइबोक्सा | (2) एन्टामोबा हिस्टोलाय्टिका |
| (3) अमोबा प्रोटेयस | (4) टेनिया सोलियम |

70. Pearl is produced by :

- | | |
|------------|--------------|
| (1) Oyster | (2) Nautilus |
| (3) Doris | (4) Chiton |

संतो बदना है :

- | | |
|------------|-------------|
| (1) ओयर्सर | (2) नाउटिलस |
| (3) डोरिस | (4) चिटोन |

71. 'Pipe-Fish' is the common name of :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (1) <i>Syngnathus</i> | (2) <i>Hippocampus</i> |
| (3) <i>Anabas</i> | (4) Remora |

'धारा मछली' का सामान्य प्रचलित नाम है :

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) सिंग्नेथस | (2) हिपोकम्पस |
| (3) एनाबास | (4) रिमोरा |

72. 'Neoteny' refers to :

- (1) Retention of rudimentary organs
- (2) Retention of larval characters in adults
- (3) Metamorphosis
- (4) Moulting

नियोटेनी का तात्पर्य है :

- (1) मौलिक अंग के अव्याख्या रण से
- (2) वयस्कों में लार्वा के गुणों के अव्याख्या रण से
- (3) रूपान्तरण से
- (4) कंयुल निकलने से

73. Heart in crocodiles is :

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| (1) Incompletely 4-chambered | (2) Completely 4-chambered |
| (3) 3-chambered | (4) 2-chambered |

भारमच्छ के हृदय में होते हैं ?

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (1) अपूर्ण 4 प्रकोष्ठ | (2) पूर्ण 4 प्रकोष्ठ |
| (3) 3 प्रकोष्ठ | (4) 2 प्रकोष्ठ |

74. Which of the following is the characteristic of bird's eye ?

18U/92/29(Set-1)

76. Fertilization in mammals occurs in the:

स्वास्थ्यमें निषेचन होता है।

77. In which of the following National Parks Indian rhino is conserved ?

- (1) Corbett National Park (2) Kaziranga National Park
(3) Manas Santuary (4) Kaimur Santuary

भारतीय इंडो किस राष्ट्रीय पक्ष में संरक्षित किये गये हैं?

- (1) कावैट राष्ट्रीय पार्क
 (2) कर्जीरंगा राष्ट्रीय पार्क
 (3) गान्धी सेन्युरी
 (4) काइमुरा सेन्युरी

78. Haploid endosperm is found in :

अमृपित भूषणवीर पद्मा लक्ष्मा है

79. Phycobiliproteins are present in members of:

आइकॉडिलीप्रोटीन इराके सदस्यों में पाया जाता है।

18U/92/29(Set-1)

84. Archegonia are found in :

- (1) Fungi and Bryophytes
- (2) Bryophytes and Pteridophytes
- (3) Bryophytes, Pteridophytes and Gymnosperms
- (4) Pteridophytes, Gymnosperms and Angiosperms

अर्किगोनिया खाया जाता है :

- (1) क्यूट्ट तथा ब्रायोफाइट्स में
- (2) ब्रायोफाइट्स तथा टेरीडोफाइट्स में
- (3) ब्रायोफाइट्स, टेरीडोफाइट्स तथा अनादृतवीजी में
- (4) टेरीडोफाइट्स, अनावृतवीजी तथा आवृतवीजी में

85. New name of family gramineae is :

- | | |
|----------------|-----------------|
| (1) Asteraceae | (2) Apocynaceae |
| (3) Lamiaceae | (4) Poaceae |

कुल चास का नया नाम है :

- | | |
|---------------|----------------|
| (1) एस्टरीज़ी | (2) एपोस्यनेसी |
| (3) लैमियेज़ी | (4) पोइसी |

86. Type of Coffee fruit is known as :

- | | |
|--------------|----------|
| (1) Berry | (2) Pome |
| (3) Cypsella | (4) Nut |

कॉफी के फल का प्रकार जाना जाता है :-

- | | |
|--------------|---------|
| (1) बेरी | (2) पॉम |
| (3) सिप्सेला | (4) नट |

87. Oxygen evolves in plant photosynthesis during :

- (1) Photosystem I
- (2) Photosystem II
- (3) Both Photosystem I and Photosystem II
- (4) Photorespiration

ऑक्सीजन पौध प्रकाश संश्लेषण में विकसित होता है।

- (1) प्रकाश पद्धति I
- (2) प्रकाश पद्धति II
- (3) प्रकाश पद्धति I एवं प्रकाश पद्धति II दोनों
- (4) प्रकाश इवरान

88. Plants are categorised on the basis of day length required for flowering, as per this Sugarcane is a :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) Long day plant | (2) Short day plant |
| (3) Day neutral plant | (4) Night neutral plant |

पौधों को युग्मण हेतु आवश्यक दिन की लम्बाई के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इसके अनुसार गन्ना है।

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (1) लम्बा दिन पौधा | (2) छोटा दिन पौधा |
| (3) दिन तटस्थ पौधा | (4) रात तटस्थ पौधा |

89. Nullisomic aneuploids are represented by :

नलीसोमिक ऐन्यूलाइड को निरूपित किया जाता है।

- (1) $2n - 1$
- (2) $2n - 1 + 1$
- (3) $2n - 2$
- (4) $2n + 2$

90. The operator `&&` is which type of operator ?

- (1) Assignment
- (2) Increment
- (3) Logical
- (4) Relational

अंपरेटर `'&&'` निम्नलिखित में से किस प्रकार का है ?

- (1) असाइनमेंट
- (2) इनक्रीमेंट
- (3) लॉगिकल
- (4) रिलेशनल

18U/92/29(Set-1)

91. What will be the output of following source code ?

```
void main()
```

```
int a=15,b=28,c=34;
```

$$\zeta = a + b;$$

$$b = c - b;$$

$$a = c + b;$$

1

- (1) 15 28 43 (2) 28 15 43 (3) 15 28 34 (4) 28 15 34

मैनलिखित प्रोग्राम का आरटपट क्या होगा ?

```
void main()
```

—

```
int a=15,b=28,c=34;
```

$$c = a + b;$$

$b_1 - c = b_2$

a=c-b

t

- (1) 15 28 43 (2) 28 15 43 (3) 15 28 34 (4) 28 15 34

92. Karnaugh map (K-map) technique provides a systematic method for simplifying:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| (1) Multiplexers | (2) Logic gates |
| (3) Boolean expressions | (4) DeMultiplexers |

K-मॉडल तकनीक नियन्त्रित होता है कि किसे सहायता करने का व्यवसिधा तरीका है ?

- (1) महाराष्ट्र लेक्सिकन
 (2) लॉजिक लेक्सिकन
 (3) वूलीयन एक्सप्रेशन
 (4) डी-ग्राफी लेक्सिकन

93. If a logic gates has four inputs, then total number of possible input combinations is:

यदि एक लॉजिक गेट यार इनपुट हैं, तो संभव इनपुट संयोजनों की कल सख्ती क्या होती है?

94. We have to build a memory capacity of 2048 bytes using 128×8 RAM chips. Specify the size of decoder to select a RAM chip in memory :

(1) 3×8 (2) 4×16

$$(3) \quad 2 \times 4 \qquad \qquad \qquad (4) \quad 5 \times 32$$

इस 128 × 8 RAM चिप का प्रयोग करते हुए एक 2048 बाइट क्षमता की नेमेसी बनाई है।

कारी में RAM चिप का व्यवहार करने के लिए डिकोडर का राइज क्या होगा ?

(1) 3×8 (2) 4×16

$$(3) \quad 2 \times 4 \qquad \qquad \qquad (4) \quad 5 \times 32$$

95. Which of the following is a main memory?

(3) Cache memory (4) Virtual memory

अम्नालिक्षण ने ही कैन एक 'मो सारांश' है।

(1) सैकेन्डी मेमारी (2) सहायक मेमोरी

(3) कैश मेनोरी (4) वर्द्धक्य सेन्ट्रोरी

- Which memory device is generally made of semi-conductors? 3

(3) Floppy disk (4) CD disk

‘ऐसा लिखिया से नहीं करी ऐसांगी पाएँ अर्थात् उन्हें लिखित की जरी में न

11) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

(2) $\sqrt{A} \in \mathbb{F}_{q^2}$

231 [Index](#) [Feedback](#)

(1) $\hat{H} = \hat{S}_1^z$

97. Using Lagrange's formula the value of x, when y = 13.5 will be :

लोगरन्जे सूत्र का प्रयोग करते हुए x का मान निकालिए। यदि $y = 13.5$ हो।

98. The minimum and maximum value of $7 \cos \theta + 24 \sin \theta$ will be :

$7 \cos \theta + 24 \sin \theta$ का अनुनाम व अविकल्प मान निम्नलिखित में से का होगा ?

99. Which of the following formula is most accurate for numerical integration?

गिराविहित में से कौन-सा सूत्र राक्षों अधिक एकदम भूमिका दर्शाता है?

100. If x and y be two real variables such that $x > 0$ and $xy = 1$, then minimum value of $x + y$ will be ()

- (1) 1/2 (2) 1 (3) 2 (4) 3

यदि x और y दो रिटल वैरिएबल हैं, $x > 0$ तथा $xy = 1$, तो $x + y$ के सर्वांगसुत क्या हैं?

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

इस पाठ्यका के प्रथम आवरण-पृष्ठ पर तथा ऑफिसल अरबी उत्तर-पत्र के दोनों पृष्ठों पर कैले ही खाली हैं।
लाल-बाल धैर दो दो दो

- प्रश्न पुस्तिका मिलने के 30 मिनट के अन्दर ही देख ले कि प्रश्नावर में सभी पृष्ठ मीजूद हैं और कोई पृष्ठ छूटा नहीं है। पुस्तिका दोनों पार्श्वों पर इसकी सूचना तत्काल क्षमा निरीक्षक को बताए गए हैं जो की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर ले।
- परीक्षा मूल्य में प्रश्न-पत्र के अधिकारी निखार या रागदा कोई भी खुला कागज राख न न लावें।
- OMR उत्तर-पत्र ऊपर से दिया गया है, इसी पर ही गोंद और उसी पर ही लिखते करें। जूनी OMR उत्तर-पत्र को दिया जायेगा। केवल OMR उत्तर-पत्र को ही पूछाएंगे। निखार नहीं।
- ऊपर दिये गए सभी रागों की प्रतिष्ठियों को काले/नीले वाले बाल-बाइट पन से लिखें।
- OMR उत्तर-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर ऐन से अपना अनुक्रमांक निर्धारित रथान पर लिखे तथा नीचे दिये दूसरे को गाढ़ा कर दें। जहाँ-जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक तथा सेट का नम्बर उचित रथानों पर लिखें।
- ओ० एम० आर० पत्र पर अनुक्रमांक रथान प्रश्न-पुस्तिका रागदा या रोंग रागदा द्वारा कोई भी राग रागदा अनुक्रमांक रथान उपर लौट पर्याप्त रागदा की प्रतिष्ठियों में उपरिलेखन की अनुचाने नहीं है।
- उपरोक्त प्रतिष्ठियों में कोई भी परिवर्तन जब निरीक्षक छोल प्रमाणित होता है तो उसे अन्यथा या उपरोक्त रागदान का प्रयोग माना जायेगा।
- प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार टक्कियक उत्तर दिये गये हैं। उत्तर के दोनों ओर की दिये आपको उत्तर-पत्र की सम्बन्धित पृष्ठों के सामने देखे गए दूसरे उत्तर को उत्तर-पत्र के प्रथम पृष्ठ के दोनों निरीक्षणों के अनुसार बाल-बाइट पन से गाढ़ा दरखाएं।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिये केवल एक ही दूसरा को गाढ़ा करें। एक से अधिक कुछों को दो करने पर अध्यक्ष एक दूसरा को अपूर्ण भरने पर वह उत्तर गलत मान्य करायेगा।
- इसने दो लिए एक कार रेफ्रेंस द्वारा अपेक्षित उत्तर दृढ़ता कर्त्ता ना सकता है, तो वह आपके स्कूल का एक नहीं देना चाहता है, तो सम्बन्धित परिषिक के सामने नियम गति रामी कुछों को सामने लाएं कि एक दूसरी दृढ़ता जल्द दिये जायेंगे।
- उत्तर दो दो के लिये इस पुस्तिका के मुख्यालय के अवर बाल-बाइट द्वारा आदेश लाने की अनुमति प्राप्त हो।
- परीक्षा के उपरान्त अभ्यर्थी ओ० एम० आर० उत्तर-पत्रक परीक्षा कक्ष/भवन में निरीक्षक की अवश्य संपर्क दे। जबकि अभ्यार्थियों को प्रश्न-पुस्तिका और ओ० एम० आर० उत्तर-पत्रक की कापी अपने रथान पर जाने की अनुमति है।
- अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से यहाँ परीक्षा भवन से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती।
- यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, तो वह दिशविद्यालय द्वारा निराकार की जाएगी।